

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 112]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 14 मार्च 2016—फाल्गुन 24, शक 1937

तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 मार्च 2016

क्र. एफ 14-27-2014-बयालीस(1).—मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल अधिनियम, 2007 (क्रमांक 24 सन् 2007) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, दिनांक 14 मार्च 2016 को उस तारीख के रूप में विनिर्दिष्ट करती है, जिसको कि 'मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल' स्थापित हो जाएगा.

क्र. एफ 14-27-2014-बयालीस(1).—मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल अधिनियम, 2007 (क्रमांक 24 सन् 2007) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल का निम्नानुसार गठन करती है :-

- | | |
|---|------------|
| (1) अध्यक्ष, मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल; | अध्यक्ष |
| (2) प्रमुख सचिव / सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग; | पदेन सदस्य |
| (3) प्रमुख सचिव / सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग; | पदेन सदस्य |
| (4) प्रमुख सचिव / सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग; | पदेन सदस्य |
| (5) प्रमुख सचिव / सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग; | पदेन सदस्य |
| (6) प्रमुख सचिव / सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग; | पदेन सदस्य |
| (7) प्रमुख सचिव / सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग; | पदेन सदस्य |
| (8) कुलपति, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल; | पदेन सदस्य |
| (9) कुलपति, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर; | पदेन सदस्य |
| (10) निदेशक, राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय, भोपाल; | पदेन सदस्य |
| (11) आयुक्त, उच्च शिक्षा; | पदेन सदस्य |
| (12) संचालक, तकनीकी शिक्षा; | पदेन सदस्य |
| (13) संचालक, भारतीय प्रबंध संस्थान, इन्दौर; | पदेन सदस्य |

- | | | |
|------|--|------------|
| (14) | संचालक, चिकित्सा शिक्षा; | पदेन सदस्य |
| (15) | संचालक, मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल. | सदस्य-सचिव |

2. अध्यक्ष को, आवश्यकता होने पर, किसी विषय विशेषज्ञ को आमंत्रित करने की शक्ति होगी.
3. नामनिर्दिष्ट सदस्यों का राज्य शासन से निर्णय हो जाने पर नामांकन अधिसूचना पृथक् से जारी की जाएगी.

No. F-14-27-2-14-XLII-2.—In exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of Section 3 of the Madhya Pradesh Vyavsayik Pariksha Mandal Adhiniyam, 2007 (No. 24 of 2007), the State Government, here by Specify 14th March 2016 as the date on which the “Madhya Pradesh Professional Examination Board” Shall be established.

No. F-14-27-2-14-XLII-1.—In exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of Section 4 of the Madhya Pradesh Vyavsayik Pariksha Mandal Adhiniyam, 2007 (No. 24 of 2007), the State Government hereby constitutes Madhya Pradesh Vyavsayik Pariksha Mandal as follows :—

- | | | |
|------|---|-------------------|
| (1) | Chairman, Madhya Pradesh Vyavsayik Pariksha Mandal; | Chairman |
| (2) | Principal Secretary / Secretary, Government of Madhya Pradesh, Department of Technical Education and Skill Development; | Ex-officio member |
| (3) | Principal Secretary / Secretary, Government of Madhya Pradesh, Finance Department; | Ex-officio member |
| (4) | Principal Secretary / Secretary, Government of Madhya Pradesh, Higher Education Department; | Ex-officio member |
| (5) | Principal Secretary / Secretary, Government of Madhya Pradesh, Medical Education Department; | Ex-officio member |
| (6) | Principal Secretary / Secretary, Government of Madhya Pradesh, School Education Department; | Ex-officio member |
| (7) | Principal Secretary / Secretary, Government of Madhya Pradesh, Public Health and Family Welfare Department; | Ex-officio member |
| (8) | Vice-Chancellor, Rajiv Gandhi Proudyogiki Vishwavidyalaya, Bhopal; | Ex-officio member |
| (9) | Vice-Chancellor, Jawahar Lal Nehru Agriculture University, Jabalpur; | Ex-officio member |
| (10) | Director, National Law Institute University, Bhopal; | Ex-officio member |
| (11) | Commissioner, Higher Education; | Ex-officio member |
| (12) | Director, Technical Education; | Ex-officio member |
| (13) | Director, Indian Institute of Management, Indore; | Ex-officio member |
| (14) | Director, Medical Education; | Ex-officio member |
| (15) | Director, Madhya Pradesh Vyavsayik Pariksha Mandal. | Member-Secretary |

2. The Chairman shall have the power to invite any subject specialist, if needed.

3. Separate notification for the nominated members in the above Board shall be issued as and when these nominations are made by the State Government.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनील कुमार, अपर सचिव.